

भारत सरकार

पर्यटन मंत्रालय

लोक सभा

लिखित प्रश्न सं. +4204

सोमवार, 22 मार्च, 2021/1 चैत्र, 1943 (शक)

को दिया जाने वाला उत्तर

अतुल्य भारत मेगा होम स्टे विकास एवं प्रशिक्षण संबंधी कार्यशाला

+4204. श्री सुधीर गुप्ता:

श्री बिद्युत बरन महतो:

श्री राजेन्द्र धेड़्या गावित:

श्री चंद्र शेखर साहू:

श्री श्रीरंग आप्पा बारणे:

श्री संजय सदाशिवराव मांडलिक:

क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार ने हाल ही में अतुल्य भारत मेगा होम स्टे विकास एवं प्रशिक्षण संबंधी कार्यशाला का आयोजन किया था;
- (ख) यदि हां तो उक्त कार्यशाला की मुख्य विशेषताओं सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ग) क्या उक्त कार्यशाला में आतिथ्य सत्कार क्षेत्र इत्यादि से जुड़े होमस्टे स्वामियों और अन्य पेशवरों ने भाग लिया था और उन्हें प्रशिक्षण प्रदान किया गया था और यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (घ) ऐसी कार्यशाला को आयोजित किए जाने के लक्ष्यों एवं उद्देश्यों को अभी तक किस हद तक प्राप्त किया गया है; और
- (ड.) क्या सरकार का विचार देश के अन्य महत्वपूर्ण पर्यटन गंतव्य स्थलों में ऐसी कार्यशालाओं को आयोजित करने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पर्यटन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री प्रहलाद सिंह पटेल)

(क), (ख), (ग) और (घ): जी हां। दिनांक 22 से 24 फरवरी 2021 को दार्जिलिंग, पश्चिम बंगाल में अतुल्य भारत बेड एंड ब्रेकफास्ट संस्थानों/होमस्टे के लिए एक मेगा कार्यशाला का आयोजन किया गया था। इस कार्यशाला में 700 से अधिक होमस्टे मालिकों/ऑपरेटरों को क्षमता निर्माण प्रशिक्षण दिया गया। पिछले 30 वर्षों से इस क्षेत्र में कार्य कर रहे एक प्रतिष्ठित आतिथ्य स्कूल, आईआईएस स्कूल ऑफ मैनेजमेंट, सिलीगुड़ी ने कार्यशाला में भाग लेने वाले होमस्टे मालिकों/ऑपरेटरों को प्रशिक्षण प्रदान किया। अभ्यर्थियों को आतिथ्य ट्रेट्स, स्वच्छता से संबंधित मूलभूत प्रशिक्षण दिया गया और इस संबंध में जानकारी भी दी गई कि वह कैसे अपने संस्थान(ओं) को अतुल्य भारत बेड एंड ब्रेकफास्ट/होमस्टे वर्गीकरण योजना के तहत वर्गीकृत करवा सकते हैं।

(ड.): पर्यटन मंत्रालय अपने घरेलू कार्यालयों के माध्यम से सभी राज्यों में होमस्टे/अतुल्य भारत बेड एंड ब्रेकफास्ट संस्थानों के संवर्धन पर संवेदीकरण कार्यशालाओं का आयोजन कर रहा है। यह एक सतत प्रक्रिया है।

होमस्टे/बेड एंड ब्रेकफास्ट इकाई के मालिकों को जानकारी देने संबंधी एक कार्यशाला का आयोजन केरला एचएटीएस (होम स्टे एंड टूरिज्म सोसायटी) के सहयोग से दिनांक 19 फरवरी, 2021 को फोर्ट कोची, कोच्चिन, केरल में किया गया था। इस कार्यशाला में 54 होमस्टे/बेड एंड ब्रेकफास्ट इकाई मालिकों ने भाग लिया।
